



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 कार्तिक 1945 (श10)

(सं0 पटना 961) पटना, सोमवार, 13 नवम्बर 2023

उद्योग विभाग

अधिसूचना

10 नवम्बर 2023

सं० 5/स० बियाडा (औद्योगिक क्षेत्र)—09/2022—6539—बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 1974 की धारा 2 (च) धारा 4 (क) (i) एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों द्वारा कार्यकारी निदेशक (संचालन), बियाडा, पटना के पत्रांक 6936/Estt दिनांक 02.11.2023 द्वारा अनुशंसित वित्तीय भवन, फ्रेजर रोड, पटना के तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम तल कुल रकवा 16,032 वर्गफीट तथा एयरपोर्ट के नजदीक एयर कार्गो कम्प्लेक्स कुल रकवा 1.85 एकड़ भूमि को औद्योगिक क्षेत्र, पटना (शहरी) के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
दिलीप कुमार,  
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण)961-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>